



तुरंत रिलीज के लिए

### ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के प्रमाणित COVID-19 केस पर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का बयान

मंगलवार, 24 मार्च 2020

सोमवार, 23 मार्च को, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को सूचना दी गई थी कि हमारी क्लार्क (Clark) फैसिलिटी के एक ट्रांज़िट ऑपरेटर (Transit Operator) की COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) की जांच पॉजिटिव आई है। यह ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का पहला प्रमाणित केस है।

हमारी टीम इस ऑपरेटर के संपर्क में है, जो इस समय घर में अलग रह रहा है।

इस समय, सिटी की सबसे बड़ी प्राथमिकता, प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार को सहयोग प्रदान करना और हमारे कर्मचारियों व समुदाय की सुरक्षा व स्वास्थ्य को कायम रखने में लगातार मदद करना है।

जैसे ही सिटी को इस बारे में सूचित किया गया, स्टाफ ने तुरंत पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) को संपर्क किया और तब से ही उनके संपर्क में है। पब्लिक हेल्थ उन कर्मचारियों को सीधे संपर्क कर रही है, जो इस ऑपरेटर के निकट संपर्क में आए हैं। जिन कर्मचारियों को संपर्क किया गया है, उन्हें 14 दिनों तक खुद को दूसरों से अलग रखने और लक्षणों के निरीक्षण के निर्देशों सहित, पब्लिक हेल्थ द्वारा अगले कदमों के बारे में सलाह दी जाएगी। पील पब्लिक हेल्थ सूचित करता है कि ट्रांज़िट बस पर सवारियों को बस उतना ही जोखिम है, जितना आम समुदाय में होने से है। इसके अलावा उन्हें कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं है।

इस समय, यह पहचान की गई है कि उस ऑपरेटर ने 10, 11, 12 और 13 मार्च को इन रूट्स पर काम किया था:

- 11 स्टील्स (11 Steeles)
- 51 हैरफोर्ड (51 Hereford)
- 53 रे लॉसन (53 Ray Lawson)
- 57 शैरोलेस (57 Charolais)

पील पब्लिक हेल्थ और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, विस्तृत समय सूची को पूरी तरह से समझने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

जिन लोगों ने उपरोक्त दिनों को बसों पर सफर किया, यदि उन्हें कोई लक्षण नहीं है और वे बिल्कुल ठीक हैं, तो वे अपनी रोज़ाना की दिनचर्या को जारी रख सकते हैं। वे पब्लिक हेल्थ को फोन न करें। यदि आपको कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो कृपया पील पब्लिक हेल्थ को फोन करें। यदि आपको एमरजेंसी डाक्टरी सहायता की जरूरत है, तो कृपया 911 पर फोन करें।

सिटी समुदाय को आश्वस्त करती है कि यह हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदायों की सुरक्षा को कायम रखने में मदद के



लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी।

अधिक बार सफाई और रोगाणु मुक्त करने की समय सारणी पहले की तरह ही प्रभावी रहेगी। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय, हम हर 24 घंटों में इन्हें रोगाणु मुक्त कर रहे हैं। फैसिलिटीज और टर्मिनल्स के लंचरूम्स, मेजों, काउंटर और दरवाजों के हैंडलों को दिन में दो बार साफ किया जा रहा है और रोगाणु मुक्त किया जा रहा है।

ऑपरेटर्स और यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी जैसे उपायों का समर्थन करने के लिए:

- बसों में आधी सीटों पर ही सवारियां ली जाएंगी।
- पिछले दरवाजे से बस में चढ़ने और निशुल्क किराए जैसे बदलाव प्रभावी हैं। इसके अलावा, हम ऑपरेटर्स और यात्रियों के बीच खाली स्थान प्रदान करने के लिए प्लास्टिक की चेन जैसा बैरियर लगा रहे हैं। मोबिलिटी डिवाइसों वाली सवारियां पहले की तरह अगले दरवाजों से ही बस में चढ़ सकती हैं।
- अधिक व्यस्त रूट्स पर, आर्टिकुलेटिड (अलग-अलग हिस्सों वाली) बसों का उपयोग किया जा रहा है ताकि बस में यात्रियों में सामाजिक दूरी को कायम रखने के लिए सहायता की जा सके।
- सीटों की पहचान पीली टेप से की जा सकती है। सवारियों को इन सीटों पर न बैठने का अनुरोध किया जाता है। सिटी, पील पब्लिक हेल्थ में हमारे भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। चूंकि उनके द्वारा जांच की जा रही है, नई जानकारी उपलब्ध होते ही आपको सूचित किया जाएगा।

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)